



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250]
No. 250]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 1982/भाद्र 4, 1904
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 1982/BHADRA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1982

सा. का. नि. 540(अ) :—केंद्रीय सरकार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित उसकी धारा 26 की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) नियम, 1968 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (5) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निर्मालिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सूझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (श्रम परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 1982 है।

2. (क) उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (ग) में—

“मुख्य श्रम आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “उप-मुख्य आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे।

- (ख) उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (ठ) में “क्षेत्रीय श्रम आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “(केंद्रीय)” कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 3 और 4 में “क्षेत्रीय श्रम आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “(केंद्रीय)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

4. (क) उक्त नियमों के नियम 4 के खण्ड (7) में और नियम 5 में “स्थापन में या यथासम्भव उसके निकटस्थ रखा जाएगा और” शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 6 में “और स्थापन में या यथासम्भव उसके निकटस्थ रखे जाएंगे” शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 7 में “मुख्य श्रम आयुक्त” शब्दों से पूर्व “उप” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।

- 7 नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम और परन्तुक रख जाएंगे, अर्थात् —

“(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन रखा गया रजिस्टर अद्यतन रखा जाएगा और स्थापन में उसमें दी गई अन्तिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक रखा और सुरक्षित किया जाएगा।

परन्तु यह कि नियोजक क्षत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रारों को स्थापन में भिन्न स्थानीय स्थापन पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए परिरक्षित करेगा और रखेगा।”

8. उक्त नियमों के नियम 11 के उप-नियम (1) के खण्ड (1) में पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“(1) मजदूरी की वह अवधि जिसके लिए मजदूरी मंदाय है,” (ख) खण्ड (1) और (2) को (2) और (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा,

(ग) खण्ड (1) के पश्चात् जाने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा,

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“(4) मसुगत मजदूरी की वह अवधि जिसका सम्बन्ध असदत्त मजदूरी से है को उप-दिशित करत हुए, वह दिन या तारीख जिसको असदत्त मजदूरी का मंदाय किया जाना है तथापि नियोजक विनिर्दिष्ट दिन या तारीख के अतिरिक्त किसी भी दिन ऐसी असदत्त मजदूरी का संचित कर सकता है।”

9. उक्त नियमों के नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 11-क के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“11-क मंदाय का पर्यवेक्षण —जब कभी कोई निरीक्षक ऐसा ज्ञाहें तो स्थापन का नियोजक या उगका प्रतिनिधि उसकी उपस्थिति में नियोजित व्यक्तियों को अधिसूचित तारीख को मजदूरी का मंदाय करेगा।”

10. उक्त नियमों के नियम 13, 16 और 17 में “क्षेत्रीय श्रम आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “(केंद्रीय)” कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 16 के नीचे विहित प्ररूप 6 में मद 3(क) ख (ग) और मद 4 और 5 के नीचे वर्णित “400/-” अंक के स्थान पर “1000/-” अंक रख जाएंगे।

[स एम् 31012/12/79-डब्ल्यू सी (पी डब्ल्यू)]

एम् के बिस्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1982

G.S.R. 540(E).—The following draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Air Transport Services)

Rules, 1968 hereinafter referred to as the said rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 26, read with Section 24 of the Payment of Wages Act 1936 (4 of 1936), is hereby published as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of three months from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

And objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Payment of Wages (Air Transport Services) Amendment Rules, 1982.

2. (a) In clause (c) of rule 2 of the said Rules, the words “Deputy Chief Labour Commissioner (Central)” shall be substituted for the words “Chief Labour Commissioner”.

(b) In clause (c) of rule 2 of the said rules, the bracket and the words “(Central)” shall be inserted after the words “Regional Labour Commissioner”.

3. (i) In rules 3 and 4 of the said rules the bracket and the words “(Central)” shall be inserted after the words “Regional Labour Commissioner”.

4. In clause (7) of rule 4 and in rule 5 of the said rules the words “Kept at the establishment or as near to it as possible and” shall be omitted;

5. In rule 6 of the said rules the words “Kept at the establishment or as near to it as possible” shall be omitted.

6. In rule 7 of the said rules, the word “Deputy” may be inserted before the words “Chief Labour Commissioner (Central)”.

7. For sub-rule (1) of rule 8 the following sub-rule and proviso thereto shall be substituted namely —

“(1) Every register maintained under the Act or these rules shall be maintained upto date, kept and preserved for a period of three years after the date of last entry made therein in the establishment.

Provided that the employer may with prior approval of the Regional Labour Commissioner (Central) preserve and keep the registers at a place other than the establishment specified by him.”

8. (a) Before clause (i) of sub-rule (1) of rule 11 of the said rules, the following clause may be inserted, namely —

“(i) the wage period on which wages are payable,

(b) clause (i) and (ii) may be renumbered as (ii) and (iii),

(c) The word ‘and’ appearing after clause (i) shall be omitted,

(d) after clause (iii) so renumbered the following clause shall be inserted namely —

“(iv) the days or date on which unpaid wages are to be paid indicating the relevant wage period to which the unpaid wages pertain. The employer may, however, disburse such unpaid wages on any in addition to the prescribed day or date.

9. The following rule shall be inserted as rule 11-A after the rule 11 of the said rules, namely —

11-A Supervision of payment—Whenever an Inspector so desires, the employer or his representative of the establishment shall pay wages to the employed persons on the notified date of payment in his presence.”

10. In rule 13, 16 and 17 of the said rules after the words “Regional Labour Commissioner”, The bracket and the word “(Central)” shall be inserted.

11. In form-VIII prescribed under rule 16 of the said rules, the figures “400” mentioned under items 3(a)(b)(c) and items 4 and 5 may be substituted by the figures “1000”.

[No. S 31012/12/79 WC(PW)]

S K BISWAS, Under Secy